



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 818 राँची, सोमवार

13 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

31 जुलाई, 2018

संख्या-5/आरोप-1-558/2014-1179 (HRMS)-- श्री राम कुमार मंडल, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-637/03, गृह जिला- दरभंगा, बिहार), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता धनबाद के विरुद्ध उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-2282/गो०, दिनांक 17 सितम्बर, 2013 द्वारा झारिया अंचल के अन्तर्गत दाखिल खारिज वाद के निष्पादन में लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-11301, दिनांक 25 नवम्बर, 2013 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है । श्री मंडल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2885, दिनांक 24 मार्च, 2014 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं उपायुक्त, धनबाद से मंतव्य की माँग की गयी है ।

उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-738/गो०, दिनांक 21 अप्रैल, 2014 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया है । परन्तु राजस्व विभाग का मंतव्य अप्राप्त रहा ।

श्री मंडल के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, धनबाद के मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-643, दिनांक 27 जनवरी, 2015 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें श्री अशोक कुमार मिश्र, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय संकल्प संख्या-3086, दिनांक 7 अप्रैल, 2015 द्वारा श्री मिश्र के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् संकल्प संख्या-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-03, दिनांक 5 जनवरी, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें इन्हें आरोप मुक्त करने का मंतव्य अंकित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसमें सूचित किया गया कि-अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान एवं उक्त के अधिसूचना तथा भूमि पर दखल-कब्जा को आधार मानते हुए दाखिल खारिज किया जाना विधिसम्मत है।

अतः संचालन पदाधिकारी का अभिमत एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए श्री मंडल को आरोप मुक्त करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAM KUMAR MANDAL BHR/BAS/2817	श्री राम कुमार मंडल, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक- 637/03), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को आरोप मुक्त करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,

सरकार के उप सचिव।

जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007
